

=====

AVYAKT MURLI

17 / 07 / 69

=====

17-07-69 ओम शान्ति अव्यक्त बापदादा मधुबन

“अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियाँ”

अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है? अव्यक्त स्थिति में आवाज है? आवाज से परे रहना चाहते हो? जब आप सभी आवाज से परे रहने का प्रयत्न करते हो, अच्छा भी लगता है। तो फिर बापदादा को व्यक्त में क्यों बुलाते हो? हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहें, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? सिर्फ एक अक्षर बताओ। जिस एक अक्षर से अव्यक्त स्थिति रहे। कौन सा एक अक्षर याद रखेंगे जो अव्यक्त स्थिति बन जाये? मन्सा-वाचा-कर्मणा तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहे इसके लिए एक अक्षर बताओ? आत्म-अभिमानि बनना, आत्मभिमानि अर्थात् अव्यक्त स्थिति। लेकिन उस स्थिति के लिए याद क्या रखें? पुरुषार्थ क्या करें?

धीरे-धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जायेगी। जो किसके अन्दर में जो बात होगी वह पहले से ही आप को मालूम पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितना-जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले न बोले लेकिन उनके अन्दर का भाव पहले से ही जान लेंगे। ऐसा समय आयेगा। इसलिए यह प्रैक्टिस कराते हैं। तो पहली बात पूछ रहे थे कि एक अक्षर कौन सा याद रखें? अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अन्तिम सम्पूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगा। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं। इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान है। जब शरीर में ही मेहमान हैं तो शरीर से भी क्या लगन रखें। सिर्फ थोड़े समय के लिए यह शरीर काम में लाना है।

यहा मेहमान बनेंगे तो फिर वहाँ क्या बनेंगे? जितना यहाँ मेहमान बनेंगे उतना ही फिर वहाँ विश्व का मालिक बनेंगे। इस दुनिया के मालिक नहीं हैं। इस दुनिया में हम मेहमान हैं। नई दुनिया के मालिक हैं। यह जो व्यक्त भाव में आ जाते हैं तो उसका कारण यही है जो अपने को मेहमान नहीं समझते हैं। वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं। इसलिए उसमें अटैचमेंट हो जाती है। अपने को अगर मेहमान समझो तो फिर यह सभी बातें खत्म हो जायें।

अपना बैलेंस भी नोट करना है। जितना कमाते हैं उतना खाते हैं या कुछ जमा भी होता है। टोटल हिसाब निकाला है कितना जमा किया है? उस जमा के हिसाब से खुद अपने से सन्तुष्ट हो?(नहीं) तो जमा करने का और कोई समय रहा हुआ है? कितना समय है? समय भी नहीं है, सन्तुष्ट भी नहीं तो फिर क्या होगा? अभी सभी को यह खास ध्यान रखना चाहिए। अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए जो खुद सन्तुष्ट रहे। अपनी कमाई से खुद भी सन्तुष्ट नहीं रहेंगे तो औरों को क्या कहेंगे। एक एक को इतना जमा करना है। क्या सिर्फ अपने लिए ही जमा करना है या औरों के लिए भी करना है। औरों को दान करने के लिये जमा नहीं करना है?

ऐसा समय अभी आयेगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से यह भीख माँगेंगे। तो उन्हीं को नहीं देंगे? इतना जमा करना पड़ेगा ना। अपने लिए तो करना ही है लेकिन साथ-साथ ऐसा दृश्य सभी के सामने होगा। जो आज अपने को भरपूर समझते हैं वह भी भिखारी के रूप में आप सभी से भीख माँगेंगे। तो भीख कैसे दे सकेंगे? जब जमा होगा ना। दाता के बच्चे तो सभी देने वाले ठहरे। आप सभी के एक सेकेण्ड की दृष्टि के, अमूल्य बोल के भी प्यासे रहेंगे। ऐसा अन्तिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो। ऐसा न हो कि दर पर आयी हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाये। साकार में क्या करके दिखाया? कोई भी आत्मा असन्तुष्ट होकर न जाये।

भल कैसी भी आत्मा हो लेकिन सन्तुष्ट होकर जाये। तो ऐसी बातें सोचनी चाहिए। सिर्फ अपने लिए नहीं।

अभी आप रचयिता हो। आप के एक-एक रचना के पीछे फिर रचना भी है। माँ-बाप को जब तक बच्चे नहीं होते हैं, माँ-बाप की कमाई अपने प्रति ही होती है। जब रचना होती है तो फिर रचना का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब अपने लिए जो कमाई थी वह तो बहुत समय खाया, मनाया। लेकिन अब अपनी रचना का भी ध्यान रखना है। आपने अपनी रचना देखी है? कितनी रचना है। छोटी है व बड़ी है। बापदादा हरेक की रिजल्ट देखते हैं। उस हिसाब से कह देते हैं। एक-एक सितारे की कितनी रचना है। जितनी यहाँ रचना होगी उतना वहाँ बड़ा राज्य होगा। यहाँ कितनी रचना रची है? अपनी रचना देखी है? भविष्य को जानते हो? रचयिता तो सभी हैं लेकिन बड़ी रचना की है या छोटी रचना की हैं? (आश तो बड़ी की है) बड़ी रचना के साथ फिर जिम्मेवारियों भी बड़ी है।

अच्छा !!!

QUIZ QUESTIONS

प्रश्न 1 :- "अपने को मेहमान समझना"। बाबा ऐसे क्यों कहा?

प्रश्न 2 :- अव्यक्त स्थिती के बारे में आज बाबा कि महावाक्य क्या है?

प्रश्न 3 :- अभी सभी को किस बात पर ध्यान रखना चाहिए?

प्रश्न 4 :- हम दाता के बच्चों प्रति आज बाबा ने क्या इशारा देते है?

प्रश्न 5 :- रचना और रचयिता के बारे में आज बाबा कि महावाक्य क्या हैं?

FILL IN THE BLANKS:-

(आवाज, व्यक्त, प्रयत्न, मेहमान, भरपूर, अच्छा, भिखारी, भीख, जमा, बैक, पुरानी, समझते, शरीर, खाते, दुनिया)

1 जब आप सभी _____ से परे रहने का _____ करते हो, _____ भी लगता है।

2 हम इस _____ में भी मेहमान हैं। इस _____ में भी मेहमान है।

- 3 यह जो _____ भाव में आ जाते हैं तो उसका कारण यही है जो अपने को _____ नहीं _____ हैं।
- 4 जो आज अपने को _____ समझते हैं वह भी _____ के रूप में आप सभी से _____ माँगेंगे।
- 5 अपना _____ बैलेन्स भी नोट करना है। जितना कमाते हैं उतना _____ हैं या कुछ _____ भी होता है।

सही गलत वाक्यों को चिन्हित करे:- **【✓】** **【×】**

- 1 :- वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं। इसलिए उसमें अटैचमेंट हो जाती है।
- 2 :- मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है।
- 3 :- जितनी यहाँ रचना होगी उतना वहाँ बड़ा राज्य होगा।

4 :- जो आज अपने को _____ समझते हैं वह भी _____ के रूप में आप सभी से _____ माँगेंगे।

5 :- इस दुनिया में हम मालिक हैं।

QUIZ ANSWERS

प्रश्न 1 :- "अपने को मेहमान समझना"। बाबा ऐसे क्यों कहा?

उत्तर 1 :- बाबा कहते हैं अपने को मेहमान समझना क्योंकि

.. ① अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अन्तिम सम्पूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगा।

.. ② अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्ति में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे।

.. ③ जितना यहाँ मेहमान बनेंगे उतना ही फिर वहाँ विश्व का मालिक बनेंगे। इस दुनिया के मालिक नहीं हैं।

प्रश्न 2 :- अव्यक्त स्थिति के बारे में आज बाबा के महावाक्य क्या है?

उत्तर 2 :- अव्यक्त स्थिति के बारे में आज बाबा के महावाक्य ऐसा है कि आत्म-अभिमानि बनना, आत्मभिमानि अर्थात् अव्यक्त स्थिति। धीरे-धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जायेगी। जो किसके अन्दर में जो बात होगी वह पहले से ही आप को मालूम पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितना-जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले न बोले लेकिन उनके अन्दर का भाव पहले से ही जान लेंगे। ऐसा समय आयेगा। इसलिए यह प्रैक्टिस कराते हैं।

प्रश्न 3 :- अभी सभी को किस बात पर ध्यान रखना चाहिए?

उत्तर 3 :- बाबा कहते हैं अभी सभी को यह खास ध्यान रखना चाहिए। अपना बैलेन्स बढ़ाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए जो खुद सन्तुष्ट रहे। अपनी कमाई से खुद भी सन्तुष्ट नहीं रहेंगे तो औरों को क्या कहेंगे। एक एक को इतना जमा करना है। क्या सिर्फ अपने लिए ही जमा करना है या औरों के लिए भी करना है। ऐसा समय अभी आयेगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से यह भीख माँगेंगे। तो उन्हीं को नहीं देंगे? इतना जमा करना पड़ेगा ना।

प्रश्न 4 :- हम दाता के बच्चों प्रति आज बाबा ने क्या इशारा देते हैं?

उत्तर 4 :- बाबा कहते हैं दाता के बच्चे तो सभी देने वाले ठहरे। आप सभी के एक सेकेण्ड की दृष्टि के, अमूल्य बोल के भी प्यासे रहेंगे। ऐसा अन्तिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो। ऐसा न हो कि दर पर आयी हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाये। साकार में क्या करके दिखाया? कोई भी आत्मा असन्तुष्ट होकर न जाये। भल कैसी भी आत्मा हो लेकिन सन्तुष्ट होकर जाये। तो ऐसी बातें सोचनी चाहिए।

प्रश्न 5 :- रचना और रचयिता के बारे में आज बाबा के महावाक्य क्या हैं?

उत्तर 5 :- बाबा कहते हैं अभी आप रचयिता हो। आप के एक-एक रचना के पीछे फिर रचना भी है। माँ-बाप को जब तक बच्चे नहीं होते हैं, माँ-बाप की कमाई अपने प्रति ही होती है। जब रचना होती है तो फिर रचना का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब अपने लिए जो कमाई थी वह तो बहुत समय खाया, मनाया। लेकिन अब अपनी रचना का भी ध्यान रखना है।

FILL IN THE BLANKS:-

(आवाज, व्यक्त, प्रयत्न, मेहमान, भरपूर, अच्छा, भिखारी, भीख, जमा, बैंक, पुरानी, समझते, शरीर, खाते, दुनिया)

1 जब आप सभी _____ से परे रहने का _____ करते हो, _____ भी लगता है।

आवाज / प्रयत्न / अच्छा

2 हम इस _____ में भी मेहमान हैं। इस _____ में भी मेहमान है।

शरीर / पुरानी / दुनिया

3 यह जो _____ भाव में आ जाते हैं तो उसका कारण यही है जो अपने को _____ नहीं _____ हैं।

व्यक्त / मेहमान / समझते

4 जो आज अपने को _____ समझते हैं वह भी _____ के रूप में आप सभी से _____ माँगेंगे।

भरपूर / भिखारी / भीख

5 अपना _____ बैलेन्स भी नोट करना है। जितना कमाते हैं उतना _____ हैं या कुछ _____ भी होता है।

बैंक / खाते / जमा

सही गलत वाक्यों को चिन्हित करे:- [✓] [✗]

1 :- वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं। इसलिए उसमें अटैचमेंट हो जाती है। [✓]

2 :- मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है। [✓]

3 :- जितनी यहाँ रचना होगी उतना वहाँ बड़ा राज्य होगा। [✓]

4 :- बड़ी रचना के साथ फिर जिम्मेवारियों छोटी है। [✗]

बड़ी रचना के साथ फिर जिम्मेवारियों भी बड़ी है।

5 :- इस दुनिया में हम मालिक हैं। [✗]

इस दुनिया में हम मेहमान हैं।